



रामाज्ञा स्कूल, नौएडा
कक्षा- पाँच / विषय-हिंदी / २०१७-१८
ओलम्पियाड- अभ्यासपत्र

सही विकल्प परसही(✓) का चिह्न लगाइए –

प्रश्न 1. मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कहलाता है ?

- (क) वर्ण (ख) शब्द
(ग) भाषा (घ) वाक्य

प्रश्न 2. वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है ?

- (क) शब्द (ख) वाक्य
(ग) अक्षर (घ) वर्णमाला

प्रश्न 3. स्वरों का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है ?

- (क) मात्रा (ख) वर्ण
(ग) अक्षर (घ) विसर्ग

प्रश्न 4. किन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है ?

- (क) स्वर (ख) व्यंजन
(ग) हलन्त (घ) अयोगवाह

प्रश्न 5. अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं –

- (क) चार – सार्थक, निरर्थक, शुद्ध, अशुद्ध (ख) दो- सार्थक एवम् निरर्थक
(ग) तीन- लंबे शब्द, छोटे शब्द, औसत आकार के शब्द (घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 6. दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द है -

- (क) वाना (ख) वाय
(ग) चाबी (घ) वानी

प्रश्न 7. सचिन ने छक्का मारा, इस वाक्य में सचिन का संज्ञा – भेद है -

- (क) जातिवाचक (ख) भाववाचक
(ग) व्यक्तिवाचक (घ) द्रव्यवाचक

प्रश्न 8. वीर शब्द का भाववाचक होगा -

- (क) वीरों (ख) वीरता
(ग) वीरताई (घ) वीरा

प्रश्न 9. वह मेरी माँ की साड़ी है। इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है -

- (क) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (ख) निश्चयवाचक सर्वनाम
(ग) प्रश्नवाचक सर्वनाम (घ) सम्बन्धवाचक सर्वनाम

प्रश्न 10. कल विद्यालय बंद _____ ।

- (क) रहना (ख) रहेगा
(ग) होनी है (घ) रहेगी

प्रश्न 11. चिड़िया उड़ रही है। इस वाक्य में _____ है।

- (क) अकर्मक क्रिया (ख) सकर्मक क्रिया
(ग) प्रेरणार्थक क्रिया (घ) सरल क्रिया

प्रश्न 12. पिताजी मेरे लिए खिलौना लाएंगे। यह वाक्य _____ का है।

- (क) भूतकाल (ख) वर्तमान काल
(ग) भविष्यत् काल (घ) सामान्य भूतकाल

प्रश्न 13. सोनम जोर-जोर से हँस रही है। इस वाक्य में क्रिया-विशेषण का भेद बताइए।

- (क) कालवाचक क्रिया-विशेषण (ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण
(ग) रीतिवाचक क्रिया-विशेषण (घ) परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण

प्रश्न 14. बच्चे इसलिए स्कूल जा रहे हैं ताकि वे वहाँ पढाई कर सकें। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए

- (क) सरल वाक्य (ख) मिश्र वाक्य
(ग) संयुक्त वाक्य (घ) आजार्थकवाक्य

प्रश्न 15. चार किलो चीनी ले आओ। विशेषण का भेद बताइए-

- (क) संख्यावाचकविशेषण (ख) परिमाणवाचकविशेषण
(ग) गुणवाचकविशेषण (घ) संकेतवाचक विशेषण

प्रश्न 16. उस सभा में अनेक _____ थीं।

- (क) महिला (ख) महिलाओं
(ग) महिलागण (घ) महिलाएँ

प्रश्न 17. बंदरों ने सारी _____ फेंक दीं ।

(क) टोपियाँ

(ख) टोपियों

(ग) टोपिएँ

(घ) टोपी

प्रश्न 18 .शुद्ध वाक्य चुनिए।

(क) रानी का प्राण निकल गए

(ख) रानी के प्राण निकल गए

(ग) रानी का प्राण निकल गया

(घ) रानी को प्राण निकल गया